

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

DRAFT FOR COMMENTS ONLY

*(Not to be reproduced without permission of BIS
or used as an Indian Standard)*

IS 1448 Part 32: 2019/ ISO 3838: 2004 पेट्रोलियम के लिए परीक्षण के तरीके और उसके उत्पाद (भाग 32)

कच्चा पेट्रोलियम और द्रवीय या ठोस पेट्रोलियम उत्पाद — घनत्व या सापेक्षिक घनत्व
ज्ञात करना, — कैपिलरी स्टॉपड पायकोनोमीटर एवं ग्रेजुएटिड बाइकैपिलरी पायकोनोमीटर पद्धतियाँ,

(तीसरा पुनरीक्षण)

में

मसौदा संशोधन संख्या 1

Draft AMENDMENT NO.1

TO

**IS 1448 Part 32: 2019/ ISO 3838: 2004 METHODS OF TEST FOR PETROLEUM AND
ITS PRODUCTS (PART 32) CRUDE PETROLEUM AND LIQUID OR SOLID
PETROLEUM PRODUCTS — DETERMINATION OF DENSITY OR RELATIVE
DENSITY — CAPILLARY STOPPERED PYKNOMETER AND
GRADUATED BICAPILLARY PYKNOMETER METHODS**

(Third Revision)

(ICS 75.080)

Methods of Sampling and Test for Petroleum and
Related Products of Natural or Synthetic Origin
(excluding bitumen) Sectional Committee, PCD 01

Last date for sharing the comments is
20 December 2024

This draft amendment to Indian Standard **IS 1448 Part 32: 2019 / ISO 3838: 2004** is identical to Amendment 1 (2023) to ISO 3838: 2004 issued by International Organization for Standardization (ISO)

NOTE — The technical content of the document is not available on website. For details, please refer the corresponding ISO 3838: 2004 / Amd 1: 2023 or kindly contact:

Shri Chinmay Dwivedi
Scientist 'E' & Head (PCD)
Petroleum & Coal related products Department (PCD)
Bureau of Indian Standards
9, B.S. Zafar Marg, New Delhi-110002
Email: pcd@bis.gov.in, pcd1@bis.gov.in
Telephone: 011-23235432